

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- मई 27, 2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-**

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 82 वाहनों का चालान किया गया।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर *मास्क न लगाने वाले कुल- 03 व्यक्तियों से 3000/- रुपये शमन शुल्क* वसुला गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा०द०वि० मे 25 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

***crpc में की गयी कार्यवाही*-**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सीताराम पुत्र उमर सा० बढ़या थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से हाफ ब्लेड का टुकड़ा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/21 धारा- 151/109 crpc का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. रणजीत पुत्र बजरंगी कुशवाहा सा० बडहरा चरंगहा 2. जमुई पुत्र मुर्तजा सा० पोखरभिण्डा थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- निल/21 धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही*-**

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त ओमप्रकाश साहनी पुत्र रामनयन नि० सूचितपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-142/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र हरीराम नि० फूलमनहा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-124/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम 2. मुकेश पुत्र रामकरन नि० फूलमनहा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-125/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्तगण 1. अज्ञात थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 480 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-195/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम 2. धर्मेन्द्र पुत्र रामसकल नि० बढैपुरवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-145/21 धारा-60/65 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सिब्बन उर्फ गनेश पुत्र चन्द्रभान नि० बैजनाथ थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-81/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 26/27-05-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 32 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।